

THE SUKSHM STARCH & CHEMICALS LIMITED
 Regd. Office: Saral Road, Phasrampet, Distt. Kapurthala Punjab-144 441.
 E-mail: sukshmg@suksk.com Website: www.sukskgroup.com
 Ph. 01824-468300 Fax: 01824-231693. CIN: L15232PB34PLC010125

NOTICE OF THE 17th Annual General Meeting (AGM) of the Company
 Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Friday, the 11th day of August, 2023 at the registered office of the company at Saral Road, Phasrampet, Distt. Kapurthala Punjab-144 441. The agenda of the AGM is as follows: (i) To receive and consider the financial statements and transfer books of the company shall remain closed from 09th August, 2023 to 11th August, 2023 (both days inclusive). Hence the members holding shares in physical form are requested to notify any change in their address, bank accounts and e-mail ID, etc. immediately.
 Further, in consonance with the SEBI/MCA Circulars, the notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2022-23 is being sent to you through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories, unless any Member has opted for a physical copy of the same. The members who have not registered their e-mail IDs with the company are once again requested to kindly register / update their e-mail IDs by following the below mentioned link: <https://www.sukskgroup.com>
 Members may note that the said Notice and the Annual Report is also available on the Company's website www.sukskgroup.com and on the website of the Bombay Stock Exchange (BSE) www.bseindia.com and the National Stock Exchange (NSE) www.nseindia.com.

VUENOM INFRATECH LIMITED
 (Formerly known as Good Value Irrigation Limited)
 CIN: L62999MH1993PL017417
 Registered Office: Plot No. 10, A Wing, Arrium, Near ACME Plaza, Andheri Kurla Road, Andheri East Mumbai - 400059, Maharashtra
 Website: www.vuenom.com Email ID: info@vuenom.com

NOTICE OF 29th ANNUAL GENERAL MEETING AND AGM CLOSURE
 1. Notice is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the members of Vuenom Infotech Limited (the Company) will be held on **Wednesday, 09th day of August, 2023 at 12.30 PM IST** (through Video Conferencing and/or through Webcast) to transact the business as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder read with General Circular issued from time to time, respectively circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars).
 2. Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year ended March 31, 2023 of the Company has been sent to all the members, whose email IDs are registered with the Company/RTA/Depository, as on the cut-off date of **14th July 2023**. Please note that the receipt of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with under MCA Circulars. The Notice and the Annual Report will also be available and can be downloaded from the website of the Company www.vuenom.com.
 3. The facility of casting the votes by the members ("e-voting") will be provided by **Central Depository Services (India) Limited (CDSL)** and the detailed procedure for the same is provided in the Notice of the AGM. The remote e-voting period commences on **09th August, 2023 (09:00 AM)** and ends on **09th August, 2023 (05:00 PM)** during this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of **02nd August, 2023**, may cast their vote by remote e-voting or by e-voting at the time of AGM. Members participating through person shall be counted for reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
 4. Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN card and self-attested scanned copy of any one of the following documents viz. Aadhar card, Driving License, Election Card, Passport, utility bill or any other Govt. document in support of the address provided by the Member(s) registered with the Company for receiving the Annual Report 2022-23 along with AGM Notice by email to goodvalueirrigation@gmail.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participants. The notice of the AGM contains the instructions regarding the e-voting that the shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of AGM.
 5. The Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from **Thursday, 09th August, 2023 to Wednesday, 09th August, 2023** (both days inclusive).
 6. The Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2022-23 sent to members in accordance with the applicable provisions in due course.

POST-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF J TAPARIA PROJECTS LIMITED
 Corporate Identification Number: L74210WB1980PC020779
 Registered Office: 1st Floor, Khandra House Saralim, 1st Floor, Khandra House Saralim, 700080, West Bengal, India.
 Tel No. - 033-2255244; Email Address: info@jtapariaprojects.com; jtaparia2008@gmail.com
 Website: <http://www.jtapariaprojects.com>

Open Offer for acquisition of upto 48,60,000 Equity Shares representing 30.06% (Thirty Percent) of the voting share capital of J Taparia Projects Limited (Target Company or 'JTAPARIA') at an offer price of Rs.00 (Rupees Six Only) per Equity Share, by Mr. Chiray Agrawal (Acquirer 1) and Mr. Sarvesh Agrawal (Acquirer 2) (hereinafter collectively referred to as 'Acquirers') pursuant to and in compliance with the provisions of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended (SEBI (SAST) Regulations) (Offer).
 This Post-Offer Public Announcement is being issued by Bonanza Portfolio Limited, the Manager to the Offer (Manager), on behalf of the Acquirers, in connection with the Offer made by the Acquirers to the Public Shareholders of the Target Company, pursuant to and in compliance with the provisions of Regulation 18 (1) and other applicable provisions under the SEBI (SAST) Regulations (PoPA). This PoPA should be read in continuation of, and in conjunction with, (a) the Public Announcement dated 01st March 2023, (b) the Detailed Public Statement dated Thursday, March 30, 2023, published on Friday, March 31, 2023, in the newspapers, namely, Financial Express (English daily) (All Editions), Jansatta (Hindi daily) (All Editions), Mumbai Lakshadweep (Marathi daily) (Mumbai Edition), and Duranta Baranasi (Bengali daily) (Kolkata Edition) ('Newspapers') (SEBI Offer dated Tuesday, May 30, 2023, along with form of Acceptance cum Acknowledgement Letter of Offer (LOF) and (c) Pre-Offer Advertisement cum Commencement to the Detailed Public Statement dated Friday, June 09, 2023, published in the Newspapers on Monday, June 12, 2023. This PoPA is being published in the same aforesaid Newspapers.

Particulars	Proposed in the Offer Document (Assuming full acceptance in this Offer)	Actuals
7.1 Offer Price	Rs.0.00	Rs.6.00
7.2 Aggregate number of Equity Shares tendered	48,60,000	48,04,130
7.3 Aggregate number of Equity Shares accepted	48,60,000	48,04,130
7.4 Size of the Open Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Share)	Rs. 2,91,60,000/-	Rs. 2,88,24,780/-
7.5 Shareholding of the Acquirer before the Share Purchase Agreement Public Announcement		
(a) Number of Equity Shares	0	0
(b) % of fully diluted Equity Share capital	0.00%	0.00%
7.6 Equity Shares acquired by way of Share Purchase Agreement		
(a) Number of Equity Shares	41,77,88,800	44,33,200
(b) % of fully diluted Equity Share capital	30%	29.65%
7.7 Equity Shares acquired after the Detailed Public Statement		
(a) Number of Equity Shares acquired	27,37%	27.37%
(b) Price of the Equity Shares acquired	Nil	Nil
(c) % of Equity Shares acquired		
7.8 Post-Offer shareholding of the Acquirer		
(a) Number of Equity Shares	92,93,200	90,37,330
(b) % of fully diluted Equity Share capital	57.37%	57.02%
7.10 Pre-Offer and Post-Offer shareholding of the Public Shareholders		
(a) Number of Equity Shares	Pre-Offer: 69,26,800 Post-Offer: 1,17,69,800	Pre-Offer: 69,26,800 Post-Offer: 69,62,870
(b) % of fully diluted Equity Share capital	Pre-Offer: 42.63% Post-Offer: 42.98%	Pre-Offer: 42.63% Post-Offer: 42.98%

8. The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this PoPA and for their obligations specified under SEBI (SAST) Regulations.
 9. The Acquirers will consummate the Share Purchase Agreement transaction in accordance with the provisions of Regulations 24 (1) and/or (a) read with 17 or the SEBI (SAST) Regulations and will make an application for reconstruction of names as the promoters of the Target Company in accordance with the provisions of Regulation 31A (1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, including subsequent amendments thereto ('SEBI (LODR) Regulations').
 10. A copy of this PoPA will be accessible on the websites of Securities and Exchange Board of India, www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com and the registered office of the Target Company.
 11. The capital/other terms used in the PoPA shall have the meaning assigned to them in the LOF, unless otherwise specified.
ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER

NOTICE OF E-VOTING
 Pursuant to the provisions of Section 103 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to offer e-voting facility to the members to cast their votes electronically for all resolutions set forth in the notice convening the Annual General Meeting of the Company to be held on Friday, the 11th day of August, 2023 at 10.00 AM. The notice of e-voting is being sent only through electronic mode today as per the provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI Circulars registered with the Company/Depositories and a copy of the same has also been placed on the website of the company at www.sukskgroup.com/notice-of-agm. The record date for sending notice to shareholders is 02nd July 2023. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide the E-voting facility. The E-voting facility is available at www.evotingindia.com. The cut-off date of e-voting is 04th August, 2023. Requests to mail to the persons who have not registered with the NSDL, the acquired shares from 14th July 2023 to 04th August, 2023. A person whose name is recorded in the register of members of the Company as on the cut-off date of e-voting by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the General Meeting. The e-voting facility will be available during the following voting period:
 Commencement of E-voting: Tuesday, 08th August, 2023 at 9.00 AM.
 End of E-voting: Thursday, 10th August, 2023 at 05.00 PM.
 The E-voting module shall be available by NSDL for voting after 9.00 PM on Thursday, 10th August, 2023. The vote on a resolution is cast, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. Mr. Rajesh Khubal, Managing Director of the Company, will be doing the poll through person. A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. Mr. Rajesh Khubal, Managing Director of the Company, in the presence of the company, is appointed as Grievance Officer in relation to e-voting. Any query in this regard may be sent to cs@suksk.com or info@sukskgroup.com.

Vuenom Infotech Limited
 Sd/-
 Rajesh Khubal
 Managing Director & CFO
 DIN: 08548577

Place: Mumbai
Date: 15-07-2023

BONANZA PORTFOLIO LIMITED
 Bonanza House, Plot No. 4/2, Cama Industrial Estate, Subhash Road, Behind The Hub, Conception East, Mumbai: 400 063, Maharashtra, India
 Contact Number: +91 22-62726500/68363700
 Email Address: swell.aaw@bonanzainvestments.com
 Contact Person: Ms. Swati Agrawal
 SEBI Registration Number: INM000012306
 Validity: Permanent

BONANZA PORTFOLIO LIMITED
 For and on behalf of the Acquirers
 Mr. Chiray Agrawal and Mr. Sarvesh Agrawal

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.
 INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS").

PUBLIC ANNOUNCEMENT

FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED

Our Company was originally formed and registered as a partnership firm under the Indian Partnership Act, 1932 under the name of 'M/s Flair Writing Instruments' with firm registration number BA-12035, pursuant to a deed of partnership dated 6th June, 1986, as amended and supplemented from time to time. Pursuant to the conversion of M/s Flair Writing Instruments under the provisions of Chapter XXI of the Companies Act, 2013, our Company was incorporated as a private limited company on August 12, 2016 at Mumbai, Maharashtra, India as 'Flair Writing Industries Private Limited'. Our Company was then converted into a public limited company and was re-registered as 'Flair Writing Industries Limited'. A fresh certificate of incorporation dated 15th July 2023 was issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai, India. For further details in relation to changes in the name of our Company, see 'History and Certain Corporate Matters' on page 156 of the Draft Red Herring Prospectus dated July 14, 2023 ('DRHP'), filed with Securities and Exchange Board of India ('SEBI') on July 15, 2023.

OUR PROMOTERS: MR. KHUBILAL JUGRAJ RATHOD AND MR. VIMALCHAND JUGRAJ RATHOD

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO (i) PER EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED (THE 'COMPANY' OR THE 'ISSUER') FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) (THE 'OFFER PRICE') (AGGREGATING UP TO ₹7,45,00,000 MILLION) (THE 'OFFER') (COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ('EQUITY SHARES') OF FLAIR WRITING INDUST

सूचना

श्री. अमरनाथ मोहनलाल मेहरा हे पुत्र वंश - श्री. अशोकचंद्र (अशोक) सोमवारी दि. २६...

जाहीर सूचना

श्री. अमरनाथ मोहनलाल मेहरा हे पुत्र वंश - श्री. अशोकचंद्र (अशोक) सोमवारी दि. २६...

Can Fin Homes Ltd. Real Estate Services. Contact: 020-26111111. Website: www.canfinhomes.com

जुलैची सूचना. Various real estate listings and auction notices from Mumbai and other regions.

Form 7. Income Tax Return (SAY 11-3). Includes instructions for filing and a table for tax calculation.

NSE. National Stock Exchange of India. Includes information about the Nifty 50 index and market data.

FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED. Public Announcement regarding the conversion of the company to a public limited company.

Table with 4 columns: क्र. (No.), विवरण (Description), मूल्य (Value), and टिप्पणी (Remarks). Lists various items and their corresponding values.

FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED. Public Announcement. Detailed text regarding the company's conversion, shareholding structure, and regulatory compliance.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS. Includes logos for Nuvama, Axis Capital, and Link Intime. Lists contact information for each firm.